

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- नवम्बर 07, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***177 वाहनों का चालान , 40 वाहनों से कुल 2800/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 04*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 69 व्यक्तियों से 6900/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के महेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

गुण्डा एक्ट के अंतर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना फरेन्दा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजन खा उर्फ मो0 रजा पुत्र किस्मत अली नि0 फतू मल्ल टोला बैंक रोड कस्बा थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 3/4 गुण्डा अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

पशु क्रूरता नि0 अधिनियम के अंतर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दीनानाथ पुत्र चीनक नि0 बरगदवा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 03 अदद गाय व 03 अदद बछिया को क्रूरता पूर्वक मारते पीटते हुये ले जाने पर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- 130/20, धारा- 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-11*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 06/07-11-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 23 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।